## **Action Construction Equipment Ltd.**

Corporate & Regd. Office
Dudhola Link Road, Dudhola, Distt. Palwal - 121102, Haryana, India



Date: August 6, 2021

To,

The Manager Listing BSE Limited 5<sup>th</sup> Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai-400001 Scrip Code: 532762 The Manager Listing
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai-400051
CM Ouote: ACE

Subject: Submission of Newspaper Advertisements under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith, copies of the newspaper advertisement published in the FINANCIAL EXPRESS (English) and JANSATTA (Hindi) on August 06, 2021 relating notices of 27<sup>th</sup> Annual General Meeting, remote e-voting information and book closure.

This is for your information and record please.

Thanking you.

For Action Construction Equipment Limited

Anil Kumar

Klellefour 6

Company Secretary & Compliance Officer















🔰 बैंक ऑफ़ बड़ोदा

ROSAR BRANCH, 4TH FLOOR, RAJENDRA

BHAWAN, RAJENDRÁ PLACE, NEW DELHI -110008

Phone Numbers- 9873272801

Email - sardii@bankofbaroda.co.in

are withdrawing the auction Sale

respect of properties at Serial No. 3,4,6,7,9

Name: Amit Gupta,

**Authorized Officer,** 

CORRIGENDUM

Bank of Baroda

FINANCIAL EXPRESS

**ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED** CIN: L74899HR1995PLC053860

Regd. Office: Dudhola Link Road, Dudhola, Distt. Palwal-121102, Haryana Phone: +91-1275-280111 (50 Lines), Fax: +91-1275-280133 E-mail: cs@ace-cranes.com, Website: www.ace-cranes.com

NOTICES OF 27™ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

### Notice is hereby given that:

The Twenty Seventh (27") Annual General Meeting (AGM) of the Members of Action Construction Equipment Limited ("Company") will be held on Friday, September 03, 2021 at 12:00 Noon (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") in Compliance with the applicable provision of Companies Act, 2013 and rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate affairs ('MCA') and SEBI (Collectively referred to as "relevant circulars") to transact the business as set forth in the Notice calling 27" AGM. The Notice of 27"AGM and Annual Report for the financial year ended March 31, 2021 and remote e voting details have been sent in electronic mode to all the members whose email IDs are registered with the Company/RTA/ Depository. The date of completion of email of the notices and Annual Report is August 04, 2021. The Notice of AGM and Annual Report are also available on the Company's website at www.ace-cranes.com, and stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM through NSDL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned in the Notice of 27th AGM for Access to NSDL e-Voting system. Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in

respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Skyline Financial Services Private Limited, D-153A, 1 Floor, Okhla Industrial Area, Phase -I, New Delhi - 110 020. Members may note that pursuant to the General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by the MCA, the Company has enabled a process for the limited purpose of receiving the Company's annual report and notice for the Annual General Meeting (including remote e-voting instructions) electronically, and Members may temporarily send their email address at cs@ace-cranes.com. REMOTE E-VOTING INFORMATION: Members holding shares either in physical form or in

dematerialized form as on the cut-off date, i.e Friday, August 27, 2021 may cast their vote electronically through remote e-voting on the resolutions as set out in the Notice of 27" AGM through remote e-voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) at their e-Voting system. All the members are informed that: (a) The resolutions as set out in the Notice of 27" AGM may be voted through remote e-voting;

(b) The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for the members who have not registered their

email addresses has been provided in the Notice of the 27° AGM. (c) Voting through remote e-voting shall commence at 9:00 a.m. on Monday, August 30, 2021 and shall end at 5:00 p.m. on Thursday, September 02, 2021.

(d) E-voting shall also be made available at the 27" AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote through remote e-voting shall be able to vote at the 27" AGM. Procedure for the e-voting on the day of AGM is same as mentioned for remote

(e) The cut-off date for determining the shareholders' eligibility to vote by electronic means or e-voting at the 27" AGM is Friday, August 27, 2021.

(f) Any person who acquires shares of the Company and become members of the Company after dispatch of the Notice of the 27"AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. August 27, 2021, are requested to refer to the Notice of 27°AGM for the process to be adopted for obtaining the USER ID and password for casting the vote or may send a request at evoting@nsdl.co.in or RTA or the Company at cs@ace-cranes.com. (g) For process and manner of remote e-voting, and e-voting at the AGM, members may go

through the remote e-voting instruction as given in 27"AGM Notice or in case of any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting, the members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) of NSDL or contact NSDL on evoting@nsdl.co.in/1800 1020 990 and 1800 224 430 or contact Ms. Soni Singh, Assistant Manager (NSDL) at evoting@nsdl.co.in. (h) Members may note that: (i) No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. The Remote e-voting

module shall be disabled by NDSL for voting thereafter. (ii) Once the vote on resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to

change it subsequently. (iii) The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the

members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again (iv) A member whose name is recorded in the register of members or in the register of

beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. August 27, 2021 shall only be entitled for availing the remote e-voting facility or e-voting at the AGM. (v) M/s Vasisht & Associates, Company Secretaries has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the Remote e-voting and e-voting at the AGM in a fair and transparent manner BOOK CLOSURE: Notice is further given that pursuant to the Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, August 27, 2021 to Friday, September 03, 2021 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and for determining the entitlement of the shareholders to the dividend for FY 2020-21.

The Shareholders may refer the Company's communication in relation to TDS on dividend payment during the FY 2021-22 and related matters thereto in the Notice of 27" AGM of the Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the 27" AGM and

in particular, instruction for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting of e-voting at the AGM. For and on behalf of Action Construction Equipment Limited

Anil Kumar Date : August 05, 2021 Company Secretary

## PUBLIC NOTICE

to the notice of the general public that one ID Card of Mr. Furkan Ali issued by ICICI Bank Ltd. having ID Card 2109698 has been found missing and/or lost or 29-07-2021 Time 02:20. Anyone, who finds the said ID card, is requested to return the said ID Card to the Manager Debt Services & Management Group, ICICI Therefore, all the customers, of ICICI Bank Limited are

hereby notified not to make any payment to any unauthorised person holding the said ID Card No. Please take further notice that anybody making payment to any person holding the said ID Card shall do so at his/her own costs, risk and peril and ICICI Bank shall not

For ICICI Bank Limited Date: 03/08/2021

WISEC GLOBAL LIMITED NH-II, 2ND Floor, C -Block Community Center, Naraina Vihar, New Delhi-110028 NOTICE

Pursuant to the provision of Clause 49 (I) (C) of the Listing Agreement, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday,12th August, 2021, to inter-alia, consider, approve and take on record the un audited result for the quarter ended on 30th June 2021.

Rakesh Rampal Whole Time Director Place: New Delhi

For Wisec Global Limited Date: 05/08/2021

NOTICE FOR E-AUCTION OF ASSETS & PROPERTIES VALLABH STEEL WEST PRIVATE LIMITED (In Liquidation) A company under liquidation process vide Hon'ble NCLT order dated 16-09-2020

Corrigendum Order dated 06-11-2020) Flat No. 1309, 13th Floor Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi - 110008. Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Sale of Assets and Properties owned by Vallabh Steel West Private Limited. (In Liquidation)

forming part of Liquidation Estate by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Principal Bench New Delhi. The sale will be done by the undersigned through the e-auction platform https://www.eauctions.co.in E-Auction: Sale of Assets of the Corporate Debtor under Insolvency and

Bankruptcy Code, 2016

Date and Time of E-Auction: 12th August, 2021, 2.30 PM to 4.30 PM (With unlimited extension of 5 minutes each)

Last date for submission of EMD : on or before 11 August 2021 till 6 PM Date of Inspection: 07th August 2021 to 11th August 2021 (12.00 Noon to 4 PM) with prior intimation to the liquidator

Details of Assets	Reserve Price (Rs. in Crores)	EMD Amount (Rs. in Lacs)	Incremental Bid Value (Rs. in Lacs)
Plant & Machinery installed at the Factory Site	6.50	65.00	10.00
terms and conditions of E-Auction and oth	er details of pr	operties are	uploaded at

the website i.e. http://www.eauctions.co.in Interested bidders may contact Liquidator for inventory list and further details in order to submit

Contact person on behalf of E-Auction Agency (Linkstar Infosys Pvt Ltd): Mr. Dixit Prajapati, Email: info@evotingforibc.com/admin@eauctions.co.in, Mob.: +91 7874138237 Contact person on behalf of Liquidator: Narender Kumar Sharma Email: liquidator.vswpl@gmail.com / nksharma.fcs@gmail.com Tel No.: 0124-4304315 / 6

Date: 06.08.2021 Narender Kumar Sharma, Liquidator Place: Gurgaon IBBI Reg. No: IBBI/IPA-002/IP-N00125/ 2017-18/ 10294

Mobile No.: +919818782268

Regd. Address: Plot No. 112A, Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon, Haryana-122016 Registered office: AKME BUSINESS CENTRE (ABC), 2nd Floor, 4-5 SUBCITY CENTRE SAVINA CIRCLE, UDAIPUR RJ 313002 IN

_	The same of the sa	Contact No.	0020030010			
_	USING FINANCE	Corporate Office: 603, Western Edge 1, Above Metro Mall, Borivali East, Mumbai 400063, India, Tel.: +9188280 36610				
Star hai toh hharma hai EXTRACTS OF STANDAI		CIN: L4S201RJ2005PLC02048 LONE UNAUDITED FINA NE 30, 2021 AS PER IND	NCIAL RESI	JLTS FOR		
	Application of the production of the state o	elanten kalakat salaemat inanten lainaten lainaten lainaten kalamini historia kalamini kehiteta kalamini kehit	the makes the transport of the control of the contr	procession accomplished by the control of the second		
	Particular	Quarterly ended June 30, 2021	CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE PARTY AND	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		
о,		Julie 30, 2021	IMBIGIT 31, 2021	Julie 30, 2020		

S. No.	Particular	Quarterly ended June 30, 2021 (Unaudited)	Year ended March 31, 2021 (Audited)	Quarterly ended June 30, 2020 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	447.663	1560.291	348.017
2	Net Profit/( loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	32.078	218.435	125.162
3.	Net Profit/( loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	300000 200000000	218.435	125.162
4.	Net Profit/( loss) for the period after Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	23.633	155.658	94.898
5.	Total Comprehensive income for the period (comprising profit(loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)	0.0000000000000000000000000000000000000	155.658	94.898
6.	Paid up Equity Share Capital ( face value Rs. 10)- each)	1567.350	1567.350	1567.350
7.	Reserve (excluding Revaluation Reserve)			
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) Basic	0.151	0.993	0.605
	Earnings Per Share (of Rs. 10/-each) Diluted	0.151	0.993	0.605

a) The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2021 filed with BSE Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regularements) Regulations, 2015. The full formats of Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2021 are available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and Company's website at www.starhfl.com b) The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at their meeting held on 05th August, 2021

c) The unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2021 by the Statutory Auditors of the Company in compliance with the requirement of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. FOR, STAR HOUSING FINANCE LIMITED

Place: Udaipur PARITOSH KOTHARI Date: 05.08.2021 COMPANY SECRETARY

## **GRM OVERSEAS LIMITED** CIN: L74899DL1995PLC064007

Registered Office: 128, First Floor, Shiva Market Pitampura North Delhi-110034 Website: www.grmrice.com | Email id: grmrice1@gmail.com Tel No: 011-47330330 | Fax No: 011-(0180 - 2653673)

### PUBLIC NOTICE

Pursuant to the Regulation 47 read with Regulation 29(1)(a) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday , August 12, 2021 at 03: 30 p.m. to inter alia discuss the To Consider and approve the Unaudited Standalone and Consolidated Financia

Results of the Company for the Quarter ended on 30th June 2021. To consider and approve declaration of an interim Dividend to the equity

shareholders of the Company. Further, as intimated earlier vide our letter dated -30th june, 2021, the trading window of

the Company pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 read with Code of Conduct to regulate, monitor and report trading by insiders framed by the Company, has been closed for all Designated Persons & their relatives from 01.07.2021 till 48 hours after conclusion of Board Meeting i.e., till 14.08.2021 (both days inclusive). The said Notice may be accessed on the Company's Website at http://www.grmrice.com and may also be accessed on the Stock Exchange website at http://www.bseindia.com.

By order of the Board FOR GRM OVERSEAS LIMITED

**Balveer Singh** Date: 05th August, 2021 (Company Secretary) Place: New Delhi

### JAI MATA GLASS LIMITED FORM NO. INC-26

[Pursuant to Rule 30 of Companies (Incorporation) Rules 20141

Advertisement to be published in Newspaper for the change in Registered Office of the Company from one state to another

Before the Central Government (Regional Director, Northern Region) In the matter of sub-section 4 of section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules 2014

In the matter of M/S DUSTARA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED having its Registered Office at 301, Tower no.17, The Close South, Nirvana Country, Gurugram; Haryana,

Notice is hereby given to General Public that the company proposes to make an application to the Central Government under section 13 of the Companies Act 2013, seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the company in term of special resolution passed at Extra ordinary General Meeting of the company dated July 15, 2021 to enable the company to change its Registered Office from "State of Haryana" to the "National capital Territory(NCT) of Delhi". Any person whose interest is likely to be

affected by the proposed change of registered office of the company may deliver either on the MCA portal (www.mca.gov.in) by filling investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region at the Address B-2 WING, 2nd FLOOR, PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI -110003, within 14 Days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

Tower no.17, The Close South, Nirvana Country, Gurugram, Harvana-122018

ADDRESS OF REGISTERED OFFICE: 301,

For and on behalf of applicant VINOD FOTEDAR (DIRECTOR) DIN: 07090966

Date: August 6, 2021 Place: Gurugram

# NOTICE BOARD

CORPORATE ASSOCIATE DIARY

EVENTS, HONOURS



# **CONCLAVE - CWC**

Regional Manager Conclave was held recently at Corporate Office. New Delhi where RMs of all 14 regions participated. First quarter performance review was done and planning for achieving the targets for the year 2021-22 was reviewed.



# **LAUNCH - TATA POWER-DDL**

Tata Power-DDL has announced the launch of 'Naya Connection Sahayata Kendra'. The initiative aims to extend support for new electricity connection services to its consumers residing in JJ clusters of North Delhi



# **CSR - POWERGRID -NR I**

A MoU has been signed between POWERGRID and Gurugram Administration for Supply and Installation of PSA Type 2x50 Nm3/hr Oxygen Generation Plant with bottling facility at Tau Devi Lal Stadium, Sector-38, Gurugram, Haryana.



Recently, BOI announced financial results for the guarter ended 30th June 2021. The Net Profit of the bank stood at Rs.720 Cr, up by 188% over Q4FY21. The bank's Non-Interest Income grew by 39% YoY.



# **MOU - ICSI**

ICSI signed a MoU with Bennett University (Times Group) under the ICSI Academic Collaborations Initiative to facilitate a comprehensive partnership for imparting knowledge and skills to students and academicians of both the Institutes.



# **MOU - NBCC**

SBICAP Ventures Ltd. signed a MoU with Ld. Court Receiver for funding Rs. 650 Cr. in six projects of erstwhile Amrapali Group at Noida and Gr. Noida in presence of KPM Swamy, ED (Engg.) NBCC.

# **APPOINTMENT**

**LIC** Mini lpe has taken charge as Managing Director of LIC of India on 2nd August, 2021. She has rich and diverse experience in LIC having worked in various capacities. Prior to this, she was Executive Director,



**RAILTEL** has bagged two awards in category of Digital PSU and Digital Security and Puneet Chawla, CMD/RailTel, has been conferred with CMD Leadership Award in the 8th Edition of Governance Now PSU Awards. Dr. Kiran Bedi, Former Lt Governor, Puducherry felicitated the winner in a virtual event. RailTel bagged the Digital PSU Award for implementation of NIC e-office and upgradation of ERP system internally.

**INDIANOIL** reported Revenue from Operations of Rs.1,55,056 crores for Q1 of FY 2021-22 as compared to Rs.88,939 crs in corresponding quarter of FY 2020-21. The Net Profit for the guarter ended 30th June 2021 is higher at Rs.5,941 crs as compared to Rs.1,911 crs during the corresponding guarter of previous FY mainly on account of inventory gains & better petrochemical margins during the current period.

**IRCTC** Taking a step further to enhance ticket booking experience. IRCTC has launched its own payment gateway i.e., "i-Pay". IRCTC i-Pay offers various payment modes to users such as Credit Card, Debit Card, UPI, Netbanking and Wallet. IRCTC has recently introduced a strikingly new feature "Autopay", for IRCTC Website/Mobile App users.

**CENTRAL BANK OF INDIA** paid tribute to its corona warriors Late Dinesh Prasad Srivastava, Sr. Manager, & Late Ajay Gurung. SWO who lost their lives in the line of duty while providing essential banking services to masses during the corona pandemic. The occasion was marked in the presence of VK Mahendru, Field GM, Delhi Zone along with AK Pathak, RM, Dehradun Region. Tree saplings were planted in the memory of the deceased corona warriors. The family members of the deceased were Guest of Honor for the occasion.

TRIFED With the focus on "Vocal for Local" and building an "Atmanirbhar Bharat", TRIFED, in collaboration with MEA, is about to set up an Atmanirbhar Bharat corner in 100 Indian Missions/Embassies across the world to promote GI tagged tribal art and craft products besides natural and organic products. Catalogues and brochures that showcase the richness and variety of tribal products have also been shared with the Missions and Embassies.

NTPC has been bestowed with the DIGITAL PSU Award in Maharatna Category at the 8th PSU Award 2021 by Governance Now, AK Gautam, Director (Finance), NTPC. received the award from Dr Kiran Bedi, Former Lt. Governor of Puducherry at the 8th PSU Award ceremony held on virtual platform.

**NBCC** shines yet again by winning the prestigious "Best PSU Award in Nation Building category" at the Governance Now 8th PSU Award ceremony held virtually recently. Dr. Kiran Bedi, Former Governor of Puducherry, presented the Award that was received by PK Gupta, CMD, NBCC on behalf of the Company.

GAIL ES Ranganathan, Director (Marketing), GAIL received the 'Communication Leader Award' at the Governance Now 8th PSU Awards for driving various innovative communication programmes for GAIL through digital & other mediums for external & internal stakeholders. Ranganathan was also instrumental in driving various business-related communications for Natural Gas advocacy & promoting clean energy & clean environment through GAIL's Hawa Badlo initiative.

BAL BHAVAN PUBLIC SCHOOL (BBPS) As a tradition followed since years, this year too, BBPS, Mayur Viha announced its Annual Science Exhibition- 2021 on Aug 2, 2021, to be carried out for a week virtually. The oper ceremony and a historic launch of the school's Mid website - 'Innovation Hub' was conducted the same of which was streamed live on YouTube.

**LIBERTY** has launched two exciting & colourful collection called Happy Clogs & Cloud Foam for the monsoon style otient. Designed out of rubberized EVA, these collections apt for all-day comfort matching everyday outfits that for the monsoon moments into unforgettable, fun-loaded ones.

Registered Office: Village Tipra, P.O Barotiwala District Solan Himachal Pradesh-174103 Corporate Identification Number: L26101HP1981PLC004430

Email: admin@jaimataglass.com Website: www.jaimataglass.com NOTICE lotice is hereby given that a Meeting of Board of

Directors of the Company will be held at 12:30 PM on Friday 13th August, 2021 at head office, 4" Floor, Property No.2, Khasra No. 619/4, 619/7 Sopala Building, Opp. Tivoli Garden, Chattarpur, New Delhi-110074 amongst other businesses to consider and take on record the Un-Audited financial results of the Company for the quarter and three months ended June 30, 2021.

urther, pursuant to Regulation 47(2) of SEBI Listing Obligation Disclosure Requirements) Regulations, 2015, copy of notice and financial results shall be available on the Company website at www.jaimataglass.com and also at BSE website at www.bseindia.com.

For Jai Mata Glass Limited

Date : 05.08.2021 Chander Mohan Marwah Place : New Delhi (Managing Director)

available to redeem the secured assets.

S. Name

Place: New Delhi

Name of

### HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED Registered Office: B-2/8 Safdarjung Enclave, New Delhi -110029 CIN-L74899DL1988PLC031191

Place: New Delhi

Date: 05.08.2021

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) This is in reference to the advertisemen Regulations, 2015, that a meeting of the Board published in this newspaper on 03.08.2021 of Directors of the Company will be held on It is informed to the general public that the Wednesday, 11" August, 2021 at 12:00 P.M. sale of various properties were to be Einter- alia, to consider and approve the unaudited financial results of the Company for auctioned on 18.08.2021, out of which we

guarter ended on 30" June, 2021. The information contained in this notice is also available on the Company's website at in terms of order passed by Hon'ble www.bagla-group.com and the website of the Allahabad High Court. Rest terms and Stock Exchange BSE Limited-www.bseindia.com. For Hindustan Adhesives Limited

conditions remain the same". M.S. Bagla Managing Director

Date : 05-08-2021 Place : New Delhi

Bank of Baroda DIN-01425646 🔞 पंजाब नेशनल बेंक 🖰 pnb punjab national banl

**General Services Administration Department ZONAL OFFICE: GURUGRAM, HARYANA** 

> Plot No-5, Institutional Area, Sector-32 Gurugram (Haryana) NOTICE INVITING EMPANELMENT APPLICATION

Punjab National Bank Zonal Office Gurugram invites Application for Empanelment of

Electrical Safety auditors/ auditing agencies for carrying out comprehensive Electrical Safety Audit of branches/ offices/ ATM sites under jurisdiction of Zonal Office-Gurugram Harvana of Punjab National Bank. The empanelment forms and other details can be obtained from the website www.pnbindia.in/tender.aspx

Any corrigendum/ clarification in respect of above said work shall be released only at our website www.pnbindia.in/tender.aspx which may be visited regularly.

Last Time & date of submission of empanelment application is up to 12:30 PM, on

Zonal Manager

# SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION

HORTICULTURE DEPARTMENT(HQ) E BLOCK, 3RD FLOOR, DR. S.P.M. CIVIC CENTRE J.L. NEHRU MARG, NEW DELHI-110002 NOTICE INVITING TENDER

Online Open Tenders are invited under single stage-Two Bid system from experienced and financially sound eligible Firms/Contractor as per Tender Nos. 2021\_SDMC\_84143\_1 issued by DDH(HQ) in NIT No. DDH/(HQ)/SDMC/2021-22/602/NIT No. 5 Dt. 05.08.2021 Tender Cost Rs.1000/- Each Estimated Amt. is Rs. 6.00 lacs. Date of Download & Bid Submission is w.e.f. 06.08.2021 to 9.08.2021 upto 03.00 PM. Opening of Technical Bids 10.08.2021 at 03.30 PM. After getting themselves registered (If not registered earlier for e-tendering) Bidding Documents with detailed terms & conditions can be downloaded from the website https://etenders.gov.in/eprocure/app or visit SDMC website www.mcdonline.nic. in/SDMCPortal/ Tenders/CPP-ETENDERS For Online tender the helpdesk Nos are 011-23227413 & 011-23227414, or mail to : MCD-ITHELPDESK@mcd.nic.in. All details of these Tenders, Revisions, Clarifications, Corrigendum. Addendum. Time Extension etc., if any, in respect of above tender(s) will be uploaded on SDMC website only and will not be published in newspaper(s) separately. Interested Bidders should regularly visit the website to keep themselves regularly updated in respect of these tenders. DY.DIRECTOR(HORT.)HQ RO No. 35/S/DPI/2021-22 011-23225334

## पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank ...the name you can BANK upon!

Circle Sastra Center: East Delhi, Pocket-E, Mayur Vihar Phase-II, Delhi-110091 E-mail: cs8075@pnb.co.in, Ph.: Nos. (0ff): 011-22779758, 22785289, Mob.: 9718771539 POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTY IN CASE OF BORROWER (For Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the PUNJAB NATIONAL BANK, Circle Sastra Center East Delhi, (Previously Assets Recovery Management Branch) CSC, Pocket-E, Mayur Vihar Phase-II, Delhi-110091 under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of Powers conferred under Section 13 read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated 05.11.2021 calling upon the (1) Shri Dava Chand (Borrower), Add: 171/11, First And Second Floor Khasra No. 490/106 Adarsh Mohalla, Pratap Nagai Vill- Gharonda, Neem Ka Nangar Patparganj New Delhi-110091 (2) Shri Pawan Kumar (Mortgagor), Add:- 171/11 First And Second Floor Khasra No. 490/106 Adarsh Mohalla, Pratap Nagar Vill- Gharonda, Neem Ka Bangar Patparganj New Delhi-110091 And 239. Gharonda Neem Ka Bangar Patpargani Village Delhi -110091, to repay the amount mentioned in the notice being Rs 2151807/- (Rupees Twenty One Lakhs Fifty One Thousand Eight Hundred Seven Only) with further inetrest, expenses and other charges etc. thereon within 60 days from the date of notice / date of receipt of the said notice.

The borrower/guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to borrower/Guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under subsection (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rule 2002 on this 3rd day of August 2021.

The Borrower in particular and the public in general Is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of the PUNJAB NATIONAL BANK, Circle Sastra Center East Delhi, CSC, Pocket-E, Mayur Vihar Phase-II Delhi-110091 for an Amount of Rs. 2151807/- (Rupees Twenty One Lakhs Fifty One Thousand Eight Hundred Seven Only) as or 31.010.2019 with further interest, expenses and other charges etc. thereon.

The borrower's /guarantor's/mortgagor's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time

Equitable Mortgage of Property No. 171/11, First and Second Floor Khasra No. 490/106, Adarsh Mohall, Pratap Nagar Vill-

Gharonda Neem Ka Bangar, Patparganj, Delhi-110091 **DESIGNATION: CHIEF MANAGER** Date: 03.08.2021,

**Authorized Officer, Punjab National Bank** Place: New Delh पंजाब नैशनल

punjab national bank .the name you can BANK upon!

Date of

Date of

Name of

**Authorized Office** 

Amount

Circle Sastra Center East Delhi, Pocket-E, Mayur Vihar Phase-II, Delhi-110091 E-mail: cs8075@pnb.co.in POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the PUNJAB NATIONAL BANK, Circle Sastra Center East

Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of Powers conferred under Section 13 read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated 17-09-2020 calling upon the **M/s Anie Rags Signature Private Limited** through  $\,$  its Proprietor Sh. Hemant Mehta **110092** to repay the amount mentioned in the notice being Rs 39,28,161.51 (Rupees Thirty Nine Lakhs Twenty Eight Thousand One Hundred Sixty One and fifty five paisa only) within 60 days from the date of notice / date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to borrower, Guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub

section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rule 2002 on this 30th day of July of the year 2021. The borrower's /guarantor's/mortgagor's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of

Delhi, (Previously Assets Recovery Management Branch) CSC, Pocket-E, Mayur Vihar Phase-II, Delhi-110091 under the

time available to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property wi

be subject to the charge of the PUNJAB NATIONAL BANK, for an amount of Being Rs 39,28,161.51 (Rupees Thirty Nine Lakhs Twenty Eight Thousand One Hundred Sixty One and fifty five paisa only) and interest thereon w.e.f. 01.09.2020 and other expenses until payment in full. **DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES:** 

of the property demand possession **Outstanding** of the Account mortgaged(Owner of the property) notice notice **Authorised** branch affixed M/s Anie Rags | FLAT NO. B-23 LIBERAL HUSING 17.09.2020 30.07.2021

Description

Officer/s Signature SOCIETY, PASCHIM VIHAR, INDER Sastra Kumar 39,28,161.51 New Delhi Private Limited FNCLAVE NEW DELHI-110087 **Punjab national Bank** Date: 30.07.2021

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING Circle Sastra Center East Delhi, Pocket-E, Mayur Vihar Phase-II, Delhi-110091 E-mail: cs8075@pnb.co.in POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

Whereas, the undersigned being the Authorized officer of the Punjab National Bank, under the securitization and Reconstruction of

Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12)read with Rule 3 of the security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated 15-04-2021 calling upon the borrower M/s JMD INC through its proprietor Shri Prateek Dua S/o Shri Joginder Pal Dua & Guarantor Smt. Suman Dua W/o Shr Joginder Pal Dua to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 96,60,191.46 (Rupees Ninety six lakh sixty thousand one hundred ninety one and paisa forty six only) within 60 days from the date of notice(s) /date of receipt of the said notice(s). The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under subsection (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this the **04th day of August o** 

The borrower's/guarantor's/mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets

The borrower & Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealing with the property/ies will be subject to the charge of PUNJAB NATIONAL BANK, for an amount of being Rs. 96,60,191.46 (Rupees Ninety six lakh sixty thousand one hundred ninety one and paisa forty six only) with further interest and other expenses w.e.f. 31-03.2021 until payment in full together with incidental expenses, cost and other charges.

> **DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES:** Date of Date of Amount

ı	S.	Name	Name of	·	Date of	Date of	Amount	Name of
No	١	of the	the	of the property	demand	possession	Outstanding	the
	1	branch	Account	mortgaged(Owner of the property)	notice	notice		Authorised
						affixed		Officer/s
1.	ĺ	Circle	M/s JMD INC	Immovable Property part in bearing Pvt. No. B-	15-04-2021	04.08.2021	Rs.	Shri Akhouri
	1	SASTRA	through its	20 & 20A Measuring about (20'-9 X 11'-4) i.e.			96,60,191.46	Binay
	-	EAST	proprietor Shri Prateek Dua	235.17 sq. ft. or 21.87 sq. mtrs. approx. (carpet				
	ı		S/o Shri	area) on the Basement floor of freehold				
	ı	Delhi	Joginder Pal	property bearing no. 12/13 built on Plot No. 13 in				
	ı		Dua &	Block No. 12 situated at Western Extension				
	ı		Guarantor Smt. Suman Dua	Area, Karol Bagh, New Delhi -110005, Owned				
	1		W/o Shri	by Smt. Suman Dua W/o Shri Joginder Pal Dua.				
	-		Joginder Pal	<b>Bounded: East:-</b> Plot No. 14, <b>North:-</b> S/ Road,				
			Dua.	West:- Plot No. 12, South:- Road				
Punjab national Bank								
Date: 04.08.2021 Place: New Delhi Authorized Officer								

New Delhi

financialexp.epapr.in

## एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड

सीआईएन : L74899HR1995PLC053860 **पंजी. कार्यालय**ः दुधोला लिंक रोड, दुधोला, जिला पलवल–121102, हरियाणा फोन: +91-1275-280111 (50 लाइन्स), फैक्स: +91-1275-280133 ई-मेलः cs@ace-cranes.com, वेबसाइट : www.ace-cranes.com 27वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) रिमोट ई-वोटिंग

एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की सत्ताईसवीं (27वीं) वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम"), कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी सर्कलर नंबर 14 / 2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, सर्कलर नंबर 17 / 2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, सर्कुलर नंबर 20/2020 दिनांकित 05 मई, 2020 तथा सर्कुलर नंबर 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 और अन्य लागू सर्कुलर्स ("एमसीए") तथा सेबी द्वारा जारी सर्कुलर्स (सामृहिक रूप र 'प्रासंगिक सर्वालसं' कहे गए हैं) के अनुपालन में, शुक्रवार, 03 सितम्बर, 2021 की मध्या. 12.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ('वीसी') / अथवा अन्य ऑडियो विज्अल मीन्स ('ओएवीएम') व माध्यम से, 27वीं एजीएम आयोजन की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेत् आयोजित की जाएगी। 27वीं एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट और रिमोट ई-बोटिंग का विवरण उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक विधि से मेजा जा चुका है, जिनकी ई—मेल आईडी'ज कम्पनी / आरटीए / डिपॉजिटरी के पास पंजीबद्ध है। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल करने का कार्य 04 अगस्त, 2021 को पूर्ण किया जा चुका है। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.ace-cranes.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंजेज की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं। सदस्यगण एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे। सदस्यगण एनएसडीएल ई—वोटिंग सिस्टम पर जाने के लिए 27वीं एजीएम की सूचना में वर्णित कदमों का अनुसरण

पंजीकृत नहीं करवाया गया है, से अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल पता अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैट(पार्टिसिपैट्स) के माध्यम से पंजीकृत करवा लें तथा भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बी-153ए, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 को लिखकर करवा लें सदस्यगण नोट करें कि एमसीए द्वारा जारी जनरल सर्कलर नंबर 20 / 2020 दिनांकित 05 मई, 2020 के अनुसरण में, कम्पनी ने कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक सामान्य बैठक की सुचना (रिमोट ई-वोटिंग अनुदेशों सहित) इलेक्ट्रोंनिक विधि से प्राप्त करने के सीमित प्रयोजन हेत् प्रक्रिया तैयार की है तथा सदस्यगण अस्थायी रूप से अपना ई-मेल पता cs@ace-cranes.com पर भेज सकते हैं।

सदस्यों को सूचना दी जाती है कि

(क) 27वीं एजीएम की सुचना में सुचीबद्ध प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम ("ई-वोटिंग") के माध्यम

(ख) अभौतिक रूप में, भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों द्वारा तथा जिन सदस्यों ने अपना ई—मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया गया है, उनके लिए रिमोटली वोटिंग ("रिमोट ई—वोटिंग") की विधि 27वीं एजीएम की सूचना में दी गई है।

होगी तथा बहरपतिवार, 02 सितम्बर, 2021 को अप. 5.00 बजे समाप्त होगी। (घ) ई-वोटिंग की सुविधा 27वीं एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा बैठक में भाग ले रहे ऐसे

(छ) इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अथवा 27वीं एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने के संबंध में

(च) कोई व्यक्ति, जिसने 27वीं एजीएम की सुचना के प्रेषण के पश्चात शेयर अर्जित किए हैं तथा कम्पर्न cs@ace-cranes.com पर कम्पनी को अनुरोध मेज सकता है

(B) सदस्यगण रिमोट ई-बोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-बोटिंग की प्रक्रिया के लिए, 27वीं एजीएम की सुचना में सुचीबद्ध अनुदेश सावधानी के साथ पढें अथवा किसी संदेह या एजीएम में भाग लेने एवं ई-वोटिंग के संबंध में किसी समस्या की स्थित में, सदस्यगण एनएसडीएल के फ्रिक्वेंटली आस्वड ववेशचन्स (एफएवयू ज) का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं अथवा एनएसडीएल से 1800-1020-990 तथा 1800 22 44 30 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक (एनएसडीएल) से evoting@nsdl.co.in/ पर सम्पर्क कर सकते हैं।

उक्त तिथि एवं समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। तद्परांत एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-बोटिंग मॉडयूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद जसमें किसी अनवती

एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के जरिये वोट डाल बुके हैं, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, परंतु उन्हें पूनः वोट डालने का अधिकार नहीं होगा . (iv) कोई भी सदस्य, जिसका नाम सदस्यों की पंजिका अथा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित

लामार्थी स्वामियों की पंजिका में कट-ऑफ-डेट अर्थात 27 अगस्त, 2021 को दर्ज मीजूद होगा. केवल वही व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के जरिये अथवा बैठक में ई-वोटिंग द्वारा मतदान

बही बंदी : आगे सचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 के प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी वे सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां शुक्रवार, 27 अगस्त, 2021 से शुक्रवार, 03 सितम्बर

शेयरधारक वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लाभांश भगतान पर टीडीएस और उसके साथ संबद्ध मामले के संबंध में कम्पनी की 27वीं एजीएम की सचना देखें। सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी नोट्स और विशेषतः एजीएम में भाग लेने

> अनिल कुमार कम्पनी सचिव

# DCM SHRIRAM INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 5th Floor, Kanchenjunga Building, 18, Barakhamba Road, New Delhi -110001 Phone No.: 011-43745000 Email: investorservices@dcmsr.com, Website: www.dcmsr.com

NOTICE FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) on Wednesday, the 08th September, 2021 at 11.00 A.M., in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 read with General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020 and 02/2021 dated 13th January, 2021 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI (collectively called "relevant

Exchange i.e, BSE Ltd. at www.bseindia.com and on the website of Company's Registrars

and Transfer Agents, KFin Technologies Pvt. Ltd. ("KFin"). Members holding shares either in physical or dematerialized form as on cut-off date, i.e 26.08.2021 may cast their votes electronically on the business as set out in the Notice of the

a) A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut- off i.e. 26.08.2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the

b) The remote e-voting shall commence on Saturday, the 04th September, 2021 (09.00 AM IST) and end on Tuesday, the 07th September, 2021 (5.00 PM IST).

c) The notice has been emailed to members on 05th August, 2021, whose names appeared in the Register of Members/ List of Beneficial Owner as on 30th July. 2021. Members who acquire shares after the mailing of the Notice and hold as on the cut -off date i.e. 26.08.2020, may obtain User ID and Password by following the procedure given in the Notes to the Notice of the AGM for exercising their rights to

allowed to change it subsequently.

e) The facility for e-voting shall also be made available during the e-AGM and the members joining the e-AGM, who have not already cast their votes by remote evoting shall be able to exercise their votes through e-voting system at the e-AGM. Members who have cast their votes through remote e-voting prior to the e-AGM

may join the e-AGM through VC/ OAVM but shall not be entitled to cast their votes

# Manner of registering / updating email addresses:

email addresses with the Company, are requested to register/ update the same by clicking on https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx or by writing to the Company/RTA with details of folio number and attaching a request letter along with self-attested copy of PAN Card at investorservices@dcmsr.com or to KFin at einward.ris@kfintech.com.

Shri Swaran Kumar Jain, Company Secretary in Practice (C.P. No. 4906), has been appointed as Scrutinizer for remote e-voting and voting at the AGM venue

Notice is also hereby given pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act 2013 read with applicable rules made thereunder and pursuant to the regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) Regulation 2015, that the Registers of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from Friday, 27th August, 2021 to Wednesday, 8th September, 2021 (both days inclusive) for determining the names of members eligible for dividend on Equity Shares for the financial year ending 31st March, 2021, if declared at the AGM.

The manner of remote e-voting for Members holding shares in dematerialized mode physical mode and for Members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM

investorservices@dcmsr.com or Company's Registrar and Transfer Agents, M/s. KFin Technologies Private Limited (formerly known as "Karvy Fintech Private Limited") having their office at Selenium Building, Tower B, Plot Nos. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032. Contact details: Toll Free No.: 1800-3094-001; or send an email request at the email id: einward.ris@kfintech.com.

> For DCM Shriram Industries Limited **DCM**SHRIRAM

रुद्राभिषेक एन्टरप्राइजेज लिमिटेड सीआईएन : L74899DL1992PLC050142

पंजीकृत कार्यालय : 820, अन्तरिक्ष भवन, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 ई-मेल : secretarial@replurbanplanners.com वेबसाइट : www.repl.global

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ 30 जुन, 2021 को समाप्त प्रथम तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन एवं अध्यक्ष की अनुमित से अन्य मामलों पर विचार करने के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 11 अगस्त, 2021 को आयोजित की जायेगी।

उपर्युक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट अर्थात www.repl.global तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

पुनः, सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 तथा कम्पनी की ''इनसाइडरों द्वारा ट्रेडिंग का विनियमन, निगरानी तथा रिपोर्ट संचालन संहिता'' के अनुसार कम्पनी की प्रतिभूतियों में संव्यवहार हेतु ट्रेडिंग विंडो पहले ही 1 जून, 2021 को बन्द कर दी गयी है तथा यह परिणामों की घोषणा/प्रकाशन के 48 घण्टों तक बन्द रहेगी।

कृते रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड

तिथि : 05.08.2021 स्थान : नई दिल्ली

विकास गुप्ता कम्पनी सचिव

परिसंपत्तियों और संपत्तियों की ई-नीलामी के लिए सूचना वल्लभ स्टील वैस्ट प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) गाननीय एनसीएलटी आदेश दिनांक 16—09—2020 के तहत परिसमापन प्रक्रिया के तहत एक कंपनी. शुद्धिपत्र आदेश दिनांक 06-11-2020)

फ्लैट नंबर 1309, 13वीं मंजिल विक्रम टॉवर, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली — 110008 दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत परिसंपत्तियों की बिक्री

वल्लभ स्टील वैस्ट प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री, माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के आदेश द्वारा नियक्त परिसमापक के कब्जे में परिसमापन एस्टेट का हिस्सा है। संपत्तियों की बिक्री ई-नीलामी https://www.eauctions.co.in के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जायेगी । ई—नीलामी : दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कॉर्पोरेट देनदार की

परिसंपत्तियों की बिक्री नीलामी की तिथि और समयः 12 अगस्त 2021 दोपहर 2.30 बजे से सांय 4.30 बजे

http://www.eauctions.co.in पर अपलोड किए गए हैं ।

(प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 11 अगस्त 2021 को या उससे पहले शाम 6 बजे तक निरीक्षण की तिथि : 07 अगस्त 2021 से 11 अगस्त 2021 (दोपहर 12.00 बजे से शाम 4 बजे) तक परिसमापक को पूर्व सूचना के साथ

आरक्षित मूल्य ईएमडी रकम वृद्धिशील परिसंपत्तियों का विवरण (रू. करोड में) (रू. लाख में) बोली मूल्य (रू. लाख में) फैक्टरी स्थल पर स्थापित प्लांट और मशीनरी 65.00 10.00 ई—ऑक्शन के नियम और शर्तें और संपत्तियों के अन्य विवरण वेबसाइट

इच्छुक बोलीदाता बोली जमा करने के लिए माल की सूची और अन्य विवरण के लिए परिसमापक से संपर्क ई-ऑक्शन एजें सी (लिंकस्टार इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड) की ओर से संपर्क व्यक्ति: श्री दीक्षित प्रजापति, ईमेलः info@evotingforibc.com/admin@eauctions.co.in मोबाइल नं:91 7874138237

परिसमापक की ओर से संपर्क व्यक्ति : नरेंद्र कुमार शर्मा, ईमेल liquidator.vswpl@gmail.com nksharma.fcs@gmail.com दूरभाष नंबर 0124-4304315 / 6 भीबाइल नंबर : +91 9818782268

नरेन्द्र कुमार शर्मा, परिसमापक दिनांक : 06 अगरत 2021 आई बीबीआई पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00125/2017-18/10294 पंजीकृत पताः प्लॉट नंबर 112ए, जद्योग विहार, फेज-V, गुडगांव, हरियाणा-122016

### मेवात जिंक लिमिटेड कॉर्पोरेट पहचान संख्या : L27204DL1991PLC046120

पंजीकृत कार्यालय : 1/24, बंसी हाउस, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 दूरभाष नं. : 011-23234316, ई-मेल आईडी : mewatzinc@gmail.com, वेबसाइट : www.mewatzinc.com

28वी वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंद होने तथा रिमोट ई-वोटिंग जानकारी के लिये सुचना रतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये मेवात जिंक लिमिटेड के सदस्यों की 28वीं वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम'') वीडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'') अन्य ऑडियो विज्अल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा शनिवार, 28 अगस्त, 2021 को 10.00 बजे पूर्वा. में आयोजित की जायेगी। सभा की सूचना, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट तथा रिमोट ई-वोटिंग के विवरण इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में ऐसे सभी सदस्यों को भेज दिये गये हैं जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। सुचनाओं के ईमेल को पूर्णता की तिथि शेयरधारकों के लिये

यदि आपने कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास अपने ई मेल आईडी दर्ज नहीं कराये हों तो कृपया एफवाई 2020-2021 के वार्षिक रिपोर्ट तथा ई-वोटिंग के लॉगिन विवरणों को प्राप्त करने के लिये अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत करने हेतु नीचे दिये गये निर्देशों का अनुसरण करें।

भौतिक धारिता : अपने फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (फ्रॉन्ट तथा बैक), पैन (पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति) को उपलब्ध कराते हुए ईमेल पते को पंजीकृत करने के लिये कम्पनी के रजिस्टार तथा अन्तरण एजेन्ट्स निविस कॉर्पसर्व एलएलपी के पास info@nivis.co.in पर एक हस्ताक्षरित अनुरोध भेजें। डीमैट धारिता : कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा डीपी की सलाह के अनुसार प्रक्रिया के अनुसार अपना ई-मेल पता पंजीकृत करायें।

ये दस्तावेज सदस्यों द्वारा डाउनलोड के लिये कम्पनी की वेबसाईट www.mewatzinc.com पर र्भ उपलब्ध है। कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा-संशोधित तथा सेबी (सचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने में सदस्यों को सक्षम बनाने के लिये अपने पोर्टल www.evotingindia.com के माध्यम से सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा सभी व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराई है। रिमोट ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 25 अगस्त, 2021 (09.00 बजे पूर्वा.) को शुरू होगी तथा शुक्रवार, 27 अगस्त, 2021 (05.00 बजे अप.) में बंद होगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमित नहीं होगी। 21 अगस्त, 2021 की कट-ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति या डीमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयरधारिता करने वाले कम्पनी के सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा इस अवधि में मतदान कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सुचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 21 अगस्त, 2021 को शेयरधारित करते हैं, वे evoting.helpdesk@cdslindia.com अथवा आरटीए, निविस कॉर्पसर्व एलएलपी को info@nivis.co.in पर अनुरोध भेजकर लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिये सीडीएसएल में पहले से ही पंजीकृत हैं तो अपना मतदान करने के लिये वे अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग के लिये सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग पद्धत्ति निष्क्रिय कर दी जायेगी। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसे परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी तथा जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर दिये हों, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे। सीएस बलदेव सिंह कस्तवाल, कार्यरत कम्पनी सचिव (सदस्यता सं. FCS 3616 एवं सीपी नं. 3169) को ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिये पर्यवेक्षक नियक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना के साथ भेजी गई पत्र में वर्णित है। ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न/ समस्या सुश्री वर्षा जोशी, कम्पनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी, मेवात जिंक लिमिटेड, 1/24, बंसी हाउस, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 को संबोधित की जा सकती है। ईमेल : mewatzinc@gmail.com कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन मे एतदद्वारा यह भी सचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पस्तकें वार्षिक साधारण सभा में शेयरधारकों का अभिलेख प्राप्त करने के उद्देश्य से शनिवार, 21 अगस्त, 2021 से शनिवार,

मेवात जिंक लिमिटेड के लिये

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 5 अगस्त, 2021

प्रबंध निदेशक DIN: 00253529

जे.पी. गुप्ता



28 अगस्त, 2021 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

(सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत) जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ बडौदा, बी-3, क्नॉट शाखा, नई दिल्ली-110001 का प्राधिकत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पंजित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ऋण धारक मैसर्स

इक्हत्तर मात्र) और दिनांक 31.12.2020 से भविष्य का ब्याज एवं प्रभार इत्यादि सहित उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भगतान करने को कहा गया था। ऋणधारक राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतदहारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का

विशेष रूप से ऋण धारक तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए साक्धान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ बड़ीदा, के प्रभार वास्ते 4,80,04,164.71 (रु. चार करोड अस्सी लाख चार हजार एक सौ चौसठ और इक्हत्तर मात्र) और दिनांक 31.12.2020 से भविष्य का ब्याज एवं प्रभार इत्यादि सहित के अधीन

परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत् उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। अचल संपत्ति का विवरण

1. कच्चे माल के सम्पूर्ण स्टॉक पर प्रथम पारी-पासु प्रभार, अर्घ निर्मित ओर तैयार माल, स्टोर और स्पेयर पैकिंग सामग्री, कम्पनी और स्टोर के नाम पर (1) जी1031-1032, फेज-।।।, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी - 301019 जिला अलवर में स्थित और कोई अन्य स्थान / गोदाम / गोदाम / अन्य परिसर / पारगमन में

2. प्रथम पारी-पासु प्रभार बिल प्राप्य / बही ऋण और उधारकर्ता के अन्य सभी चल संपत्ति जिसमें माल और अन्य संपत्तियों के स्वामित्व के दस्तावेज शामिल हैं जैसे किसी भी योजना के तहत नकद सहायता के माध्यम से बकाया धन प्राप्तियां और कस्टम / उत्पाद शुल्क की वापसी के माध्यम से दावे या सरकार की अन्य योजना, बिल, चालान प्रतिभूतियां।

4276 वर्ग मी., जोकि प्लॉट नं. जी-1031 और जी-1032, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-।।।, भिवाड़ी अलवर, राजस्थान में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स Mica वॉयर्स प्रा. लि. (पूर्व में कम्पनी) के नाम पर है, चौहद्दी : उत्तर में – 30मी, रोड, दक्षिण में – 24 मी, रोड, पुरब में – प्लॉट नं, जी1033 और 1030, पश्चिम में - 24मी, चौडी रोड फैक्ट्री की भूमि और भवन पर साम्यिक बंधक के माध्यम से प्रथम पारी—पास प्रमार. क्षेत्रफल

4000 वर्ग मी., जोकि प्लॉट नं. ई-92, रीको औद्योगिक क्षेत्र, फेज- ।, भिवाडी जिला अलवर, राजस्थान में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स Mica वॉयर्स प्रा. लि. (पूर्व में कम्पनी) के नाम पर है, चौहदी : उत्तर में – सम्पत्ति नं. 91, दक्षिण में – रोड, पुरब में – रोड, पश्चिम में – सम्पत्ति नं. 90 प्लांट और मशीनरी पर दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम पारी—पासु प्रभार, जी—1031 और 1032, रीको औद्योगिक क्षेत्र, फेज-।।।, भिवाड़ी अलवर, राजस्थान में स्थित

औद्योगिक क्षेत्र, फेज- ।, भिवाडी अलवर, राजस्थान में स्थित

# 70 साल में नहीं देखी ऐसी तबाही: चौहान

भोपाल, ५ अगस्त (भाषा)।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश नुकसान पहुंचा है। में बाढ़ से हुई भयानक तबाही पर कहा कि गई। ग्वालियर-चंबल इलाके में भारी बारिश

**Particulars** 

Net Profit/Loss for the period (before tax, Exceptional and /or

Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or

Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or

Paid - up equity share capital (face value of Rs. 10/- each)

Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss

Reserve (excluding Revaluation Reserve) as show in the Audited

Earning Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) (for continuing and

for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax)

Committee and approved by the Board of Directors at their Meeting held on 05" August, 2021.

पिछले 70 साल में ऐसी स्थिति नहीं देखी कारण शिवपुरी और श्योपुर जिलों में एक- उन्होंने कहा कि वे जिला कलेक्टरों की पृष्टि

और बाढ़ से दो लोगों की मौत हो गई और राजस्व सचिव ज्ञानेश्वर बी पाटिल ने पुलों व अन्य बुनियादी ढांचे को काफी बृहस्पतिवार को बताया कि सात लोग घायल हए हैं। इनमें गुना में चार, शिवपुरी में दो राज्य सरकार के अनुसार बारिश के और मुरैना में एक व्यक्ति घायल हुआ है। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। प्रदेश के के बाद ही मौत के आंकड़े साझा करते हैं।

Registered Office: Village Tipra, P.O Barotiwala. District Solan Himachal Pradesh-174103 Corporate Identification Number: L26101HP1981PLC004430 Email: admin@jaimataglass.com

Directors of the Company will be held at 12:30 PM on Friday 13th August, 2021 at head office, 4" Floor, Property No.2, Khasra No. 619/4, 619/7 Gopala Building, Opp. Tivoli Garden, Chattarpur, New Delhi-110074 amongst other businesses to consider and take on record the Un-Audited financial results of the Company for the guarter Further, pursuant to Regulation 47(2) of SEBI (Listing Obligation Disclosure Requirements) Regulations, 2015, copy of notice and financial results shall be available on the Company website at www.jaimataglass.com and also at BSE website at www.bseindia.com.

For Jai Mata Glass Limited Date: 05.08.2021 Chander Mohan Marwah

पंजी. कार्यालय : ए–1, यूपीएसआईडीसी इंड. एरिया, नंदगांव रोड, कोसी कलां, जिला मथुरा — 281403 सीआईएन : L60231UP2008PLC069245

एतदद्वारा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 वे विनियम 47 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शक्रवार, 13 अगस्त, 2021 को जिंदल आईटीएफ केंद्र, 28, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली–110015., में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही हेतु कंपनी के लिए अ-लेखापरीक्षित (स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड) वित्तीय परिणाम विचारित एवं अनुमोदित किए सेबी (अंतरंगी व्यापार निषेध) विनियमावली

खिड़की, उपरोक्त वित्तीय परिणामों के प्रकटन से 48 घंटे तक के लिए बंद रहेगी। यह स्चना कम्पनी की वेबसाइट www.jindalinfralogistics.com पर तथ स्टॉक एक्सचेन्ज वेबसाइटस नामत www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर

भी देखी जा सकती है, जहां कम्पनी के शेयर सचीबद्ध हैं।

: 05-08-2021

प्रपत्र सं. आईएनसी-25 ए गार्वजनिक कम्पनी का प्राईवेट कम्पनी में रूपांतरण के लिये समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाने के लिये विज्ञापन

एसीएस : 19819

मै. स्वयम स्वच्छता इनिशिएटिव लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय है: 217-ए, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया,

कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पन अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार वे पास एक आवेदन करने के लिये इच्छ्क है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 28 जून, 2021 को आयोजित असाधारण आमसभ में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छक है। कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित परे पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों क उल्लेख करते हए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें

स्वयम स्वच्छता इनिशिएटिव लिमिटेड तिथि: 05.08.2021

एरिया. फेज-III. नई दिल्ली-110020

# फॉर्म नं। INC-26

(कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के अनुसार। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केंद्र सरकार से पहले

मैसर्स दस्तारा सॉल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय- 301, टावर नंबर 17, द क्लोज साउथ, निर्वाण कंट्री, गुड़गांव, हरियाणा-122018 में होने के मामले में

कंपनी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को एक आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पृष्टि के लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया गया है। कंपनी की बैठक दिनांक 15 जुलाई, 2021 कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय को "हरियाणा राज्य" से "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली" में बदलने में सक्षम बनाने के लिए।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) पर डिलीवर कर सकता है या डिलीवरी का कारण बन सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है पते बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003 पर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के विरोध के आधार और उनकी रुचि की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए एक हलफनामे द्वारा समर्थित उनकी आपत्तियों का इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में नीचे दिए गए

301, टावर नंबर 17, द क्लोज साउथ, निर्वाण कंट्री, गुड़गांव, हरियाणा-122018 आवेदक के लिए और उसकी ओर से

दिनांक: 6 अगस्त , 2021

जगहः गुड़गांव

दिनांक : 02.08.2021, स्थान : नई दिल्ली

नई दिल्ली-110001

बी-3, क्नॉट सर्कस शाखा

(नियम 8(1)) उधारकर्ता को कब्जे की मांग की सूचना

MICA इंडस्ट्रीज़ लि. को मांग सूचना दिनांक 15.01.2021 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 4,80,04,164.71 (रु. चार करोड अस्सी लाख चार हजार एक सौ चौसठ और

सांकेतिक कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत 02.08.2021 को लिया है।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सरक्षित

3. फैक्ट्री की भूमि और भवन पर साम्यिक बंधक के माध्यम से प्रथम पारी-पास प्रभार, क्षेत्रफल

प्लांट और मशीनरी पर दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम पारी—पासु प्रभार, ई—92, रीको

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बडौदा

दिनांक: 05 अगस्त, 2021 स्थान : गुरूग्राम

संजयू गुप्ता कंपनी सचिव तथा मुख्य अनुपालन अधिकारी

वास्ते इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड

हस्ता/-

Dated: 05.08.2021 www.readwhere.com

Place: New Delhi

जानकारी तथा बही बंदी की सूचना एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि

डिपॉजिटरी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों के धारक ऐसे सदस्यों, जिनके द्वारा अपना ई-मेल पता

रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में जानकारी : कट ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 27 अगस्त, 2021 को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्य 27वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की सूचना में उल्लेखित प्रस्तावों पर अपना वोट नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के ई-वोटिंग सिस्टम पर रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाल सकते हैं। सभी

से वोट डाला जा सकता है :

(ग) रिमोट ई—वोटिंग के मध्यम से वोटिंग सोमवार, 30 अगस्त, 2021 को पूर्वा, 9.00 बजे आरंभ

सदस्य 27वीं एजीएम में वोट डाल सकते हैं, जिनके द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट नहीं

शेयरधारकों की ग्राह्मता निर्धारण हेतु कट ऑफ तिथि शुक्रवार, 27 अगस्त, 2021 हैं। का सदस्य बना है और कट ऑफ तिथि अर्थात 27 अगस्त, 2021 को शेयरों का धारक है, वह बोट डालने के लिए यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया हेत् 27वीं एजीएम की सूचना देख सकता है अथवा evoting@karvy.com पर आरटीए को अथवा

परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, तथा जो सदस्य

मैसर्स वशिष्ट एँड एसोसिएटस, कम्पनी सेक्रेटरीज को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग र रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग की संवीक्षा हेत संवीक्षक नियक्त किया गया है।

2021 तक (दोनों तिथियों सहित) सामान्य वार्षिक बैठक के प्रयोजन तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेर लाभाश के अधिकार निर्धारण के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी।

रिमोट ई-बोटिंग अथवा एजीएम में ई-बोटिंग द्वारा वोट डालने की विधि हेत् अनुदेश सावधानी के साथ कृते एवं हिते एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेर तिथि : 05 अगस्त, 2021

CIN:L74899DL1989PLC035140

circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the e-AGM dated 29th June 2021. Members will be able to attend the e-AGM through VC/ OAVM a

https://emeetings.kfintech.com/. Members participating through VC/ OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum u/s 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copies of the Notice of the AGM and the stand alone and consolidated financial statements for the financial year 2020-21, along with Board's report, Auditors' report and other documents required have been sent to all members of the Company on 05th August, 2021, whose email address are registered with the Company/ Depository Participant(s) on 30th July, 2021. The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.dcmsr.com and on the website of the Stock

# AGM through e-voting facility (remote e-voting or e-voting system at the AGM provided by

Members are hereby informed that:

d) Once the vote on a Resolution is cast by the Member, the Member shall not be

a) Members holding shares in physical mode who have not registered/ updated their

b) Members holding shares in dematerialised mode, are requested to register update their email addresses by contacting their respective Depository

For any guery members may contact the Company at 011- 43745075 / E-Mail ID:

Y.D. Gupta **Company Secretary**  MOONGIPA CAPITAL FINANCE LTD

Total Income from Operations (Net)

balance sheet of the previous year)

discontinued operations)

website (www.mongipa.com).

आयोजित की जाएगी।

a. Basic

Place: New Delhi

Date: 05" August, 2021

NOTES:

b. Diluted

Extraordinary items)

Extraordinary items)

Unaudited

36.76

23.49

23.49

37.04

37.04

305.48

68.10

1.21

1.21

(CIN: L65993DL1987PLC028669)

Regd. Office: 18/14, W.E.A., Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi-110005

Phone no.: 011-41450121

Email: moongipac@gmail.com, Website: www.mongipa.com

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021

1 The above standalone Unaudited Financial Results for the guarter ended June 30, 2021 have been reviewed by the Audit

2 The above is an extract of the detail format of the Standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2021, filed

इटरग्लाब एविएशन लिमिटड

सीआईएनः एल62100डीएल2004पीएलसी129768

पंजीकृत कार्यालयः अपर ग्राऊंड फ्लोर, थापर हाउस, गेट नंo 2,

वेस्टर्न विंग, 124 जनपथ, नई दिल्ली-110001, भारत

टेलीफोनः +91 9650098905; फैक्सः +91 11 43513200

ई-मेलः investors@goindigo.in; वेबसाइटः www.goindigo.in

वार्षिक आम बैठक एवं ई-वोटिंग की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020

दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं.

20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और सामान्य परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 ("एमसीए

परिपत्रों") के अनुपालन में, एजीएम की सूचना ("सूचना") में निर्धारित कामकाज का निष्पादन करने के

लिए, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ("कंपनीं") के सदस्यों की अठारहवीं (18वीं) वार्षिक आम बैठक

("एजीएम/ई-एजीएम") मंगलवार, 31 अगस्त, 2021 को दोपहर 02:30 बजे भारतीय मानक समय पर

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो विज्अल माध्यमों ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से

इसके अलावा एमसीए परिपत्रों और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र

संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और परिपत्र

संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 ("सेबी

परिपत्र") के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2020-21 की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट ("वार्षिक रिपोर्ट") सहित

सूचना उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई है, जिनके ईमेल पते कंपनी/उनके संबंधित

डिपॉजिटरी भागीदारों के पास पंजीकृत हैं। सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण

05 अगस्त, 2021 को पूरा हो गया है। सदस्य यह भी नोट करें कि सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी

की वेबसाइट www.goindigo.in और स्टॉक एक्सचेंजों यानि बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट

www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट

www.nseindia.com और कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज

प्राइवेट लिमिटेड ("केफिनटेक") की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध है।

संलग्न सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज और स्पष्टीकरण कथन, investors@goindigo.in पर

अनुरोध भेजने के आधार पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे। एजीएम के दौरान, निदेशकों और मुख्य

प्रबंधकीय कार्मिकों और अधिनियम की धारा 170 के अंतर्गत रखा गया उनकी शेयरधारिता का

रजिस्टर और सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ) विनियम, 2014 के अनुसार कंपनी की

ईएसओएस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कंपनी के लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

https://emeetings.kfintech.com पर लॉगिन करने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा। कंपनी

(प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108, सेबी

(सूचीयन बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 44 और इंस्टीटयूट ऑफ कंपनी

सेक्रेरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवीय मानकों (एसएस-2) के अनुपालन में, कंपनी

अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान

कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 27 अगस्त, 2021 को प्रातः 09:00 बजे शुरू होकर

सोमवार, 30 अगस्त, 2021 को सायं 05:00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान मंगलवार, 24

अगस्त, 2021 ("कट-ऑफ तारीख") को भौतिक या डीमैटीरियलाइज्ड रूप मे शेयर रखने वाले सदस्य,

जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट नहीं डाले हैं. वो ई-एजीएम के दौरान उपलब्ध

ई-वोटिंग प्रणाली ("इंस्टापोल") के माध्यम से अपने वोट डालने के लिए हकदार होंगे। बैठक में

कंपनी केफिनटेक द्वारा उपलब्ध कराए गए वीसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सदस्यों को ई-एजीएम में

भाग लेने की सविधा प्रदान करेगी। सदस्य अपने ई-वोटिंग लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके

ई-एजीएम में भाग ले सकेंगे या https://evoting.kfintech.com पर लाइव वेबकास्ट देख सकेंगे।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल

हो सकते हैं, लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। ऐसे सदस्य, जिनके पास भौतिक

रूप में शेयर हैं या जिनके ई-मेल पते पंजीकृत नहीं हैं, वो रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग के माध्यम

से किस प्रकार मतदान कर सकते हैं, यह प्रकिया एवं वीसी के द्वारा भाग लेने के लिए दिशानिर्देश

जिन सदस्यों ने नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद किंतु कट-ऑफ तारीख को या उससे पहले

कंपनी के शेयर प्राप्त किए हैं, वो +91 9212993399 पर एसएमएस भेजकर या

evoting.kfintech.com पर ई-मेल करके यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते है या

https://emeetings.kfintech.com के होम पेंज पर सूचना के नोट नंबर 22 के तहत बताए गए

तरीके से पासवर्ड बना सकते हैं। हालांकि, यदि आप पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए केफिनटेक

में पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा युजर आइडी और पासवर्ड का

क. गैर-व्यक्तिगत सदस्य, जिनके पास डीमैट रूप में शेयर हैं एवं वो सदस्य, जिनके पास भौतिक रूप

ख. व्यक्तिगत सदस्य, जिनके पास एनएसडीएल के माध्यम से डीमैट रूप में शेयर हैं, एनएसडीएल

ग. व्यक्तिगत सदस्य, जिनके पास सीएसडीएल के माध्यम से डीमैट रूप में शेयर हैं, सीएसडीएल हेल्पडेस्क

घ. डिपॉजिटरी भागीदारों द्वारा प्रदत्त सुविधा के माध्यम से वोटिंग कर रहें सदस्य अपने संबंधित

डिपॉजिटरी भागीदारों को उनके हेल्पलाईन/सम्पर्क विवरण पर सम्पर्क कर सकते हैं।

में शेयर हैं. वो केफिनटेक को टोल-फ्री नं. 1800-309-4001 पर सम्पर्क कर सकते हैं या

einward.ris@kfintech.com एवं e-voting@kfintech.com पर ई-मेल कर सकते हैं। सदस्य सुश्री

हेल्पडेस्क से evoting@nsdl.co.in पर निवेदन भेज कर या टोल-फ्री नं. 1800-1020-990 एवं

से helpdesk.evoting@cdslindia.com पर निवेदन भेज कर या टोल-फ्री नं. 022-23058738 एवं

इंस्टापोल की घोषणा किए जाने पर वोट बटन को सक्रिय किया जाएगा।

रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट डाल सकते है।

सूचना के नोट नं. 22 एवं 24 के अन्तर्गत उल्लिखित हैं।

शीतल डोबा, प्रबधंक-कॉर्पोरेट रजिस्ट्री से भी सम्पर्क कर सकते हैं;

1800-22-44-30 पर फोन करके सम्पर्क कर सकते हैं:

022-23058542-43 पर फोन करके सम्पर्क कर सकते हैं:

ई-वोटिंग से संबंधित किसी पछताछ के लिए:

उपयोग कर सकते हैं।

with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulation 2015. The

complete format of the above Financial Result is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and company's

Year Ended

Audited

126.76

81.82

81.82

41.63

41.63

305.48

26.47

1.36

1.36

31.03.2021

(Amount Rs. in Lacs, except per share data)

Unaudited

26.90

12.65

12.65

17.15

17.15

305.48

26,47

0.56

0.56

For and on Behalf of Board of Directors of

MOONGIPA CAPITAL FINANCE LTD

Pooja Jain

(Whole Time Director)

DIN: 00097037

Quarter Ended

30.06.2021 31.03.2021 30.06.2020

Audited

47.09

38.58

38.58

0.86

0.86

305.48

26.47

0.03

0.03

# **JAI MATA GLASS LIMITED**

Website: www.jaimataglass.com

NOTICE

Notice is hereby given that a Meeting of Board of and three months ended June 30, 2021.

Place: New Delhi (Managing Director)

2015 के तहत अंतरंगी व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता के अनसरण में. व्यापार

वास्ते जेआईटीएफ इन्फ्राल्जिस्टिक्स लिमिटेड के लिए

क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 नियम 41 के मामले में

फेज-III. नई दिल्ली-110020 में है, के मामले में एतदद्वारा आम जनता को सचित किया जाता है कि यह

या जमा कराएं या पंजीकत डाक से भेजें। आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से

DIN: 08851699 झरसगडा-768202, उडीसा पंजीकृत कार्यालय का पताः 217-ए, ओखला इंडस्ट्रियल

विशाल बंठिया

(क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा 4 और कंपनी (निगमन) नियमों के नियम 30 के उप-धारा (5) के खंड (ए) के मामले में केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष

आम जनता को एतद्दवारा सुचना दी जाती है कि

पते पर एक प्रति के साथ:

विनोद फोतेदार (निदेशक) दीनः ०७०९०९६६